

21.10.2022

To,
The Manager - Listing
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza,Bandra Kurla Complex
Bandra (East)
Mumbai - 400 051
Tel No. 022-2659 8237 /38

Dear Sir,

Symbol: DHAMPURSUG

The General Manager – DSC BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai: 400001 Tel No.022-22722039/37/3121

Security Code: 500119

Sub: Submission of copy of Newspaper Advertisement

Please find enclosed the copies of the newspaper advertisement published today pertaining to the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter and half year ended on 30th September, 2022, pursuant to the Regulation 47 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The advertisement copies will also be made available on the Company's website at the following web link: https://www.dhampursugar.com/investors/investor-communication/investors-information.

You are requested to take the information on record.

Thanking you,

For Dhampur Sugar Mills Limited

Aparna Goel Company Secretary M. No. 22787

ITC profit up 24% on growth across mkts

Kolkata, 20 October

obacco-to-hotels major on Thursday reported 24.4-per cent year-on-year (YoY) jump in its consolidated net profit in the July-September quarter (second quarter, or O2), which came in at ₹4,619.77 crore. In the year-ago period, profit was at ₹3,713.76 crore.

Net revenue at ₹17,108 in crore in Q2 of 2022-23 (FY23) was up 24.4-per cent YoY and ahead of Bloomberg consensus estimate of ₹16,164.3 crore. The estimate for net income was at ₹4.288.8 crore

The company attributed the performance to strong and broad-based growth across markets and channels.

Economic activity continued to gain momentum during the quarter, along with improvement in business and consumer sentiment, said ITC, adding that input prices remained elevated, even as some commodities witnessed softening in the course of the quarter.

Inflationary headwinds continued to weigh on consumption expenditure, which were partly offset by the early onset of the festival season this year in some parts of the country, said ITC.

Sequentially, net revenue at ₹17,108 crore was down 7.5 per cent, compared with the April-June quarter, while net profit was up 5.2 per cent.

Revenue from cigarettes crore, compared with ₹311.04 ₹409.04 crore a year ago.



stood at ₹7,635.38 crore, compared with ₹6,219.84 crore a year ago. Pre-tax profit from the segment came in at ₹4,634.82 crore, against ₹3,762 crore in the year-ago period.

The company said that stability in taxes on cigarettes, backed by deterrent action by enforcement agencies, enabled continued volume recovery from illicit trade.

Revenue from the non-cigarette fast-moving consumer goods segment was at ₹4,894.26 crore in O2FY23, against ₹4,043.83 crore a year ago. Pre-tax profit was at ₹323.98 crore, compared with ₹275.93 crore a year ago. Severe inflationary impact was mitigated through multi-pronged interventions, the company said. Revenue from the hospitality segment was at ₹560.37

PBIDT: Profit before interest. iation and tax; PBT: Profit before depreciation and tax; PBT: Profit before tax; *Attributable to the owners of the crore a year ago. With average room rate and occupancy ahead of pre-pandemic levels, the segment reported a pre-tax profit of ₹86.85 crore, compared with a loss of ₹49.48 crore

SCORE CARD

. (₹ cr)

17,108

455

6,714

6,239

4,620

income

PBIDT

Net

profit*

a year ago.

(change %)

-3.0

4.9

4.8

24.4

22.4

23.4

Agriculture business revenue at ₹4,038.74 crore was significantly higher - from ₹2,823.07 crore a year ago, driven by wheat, rice, and leaf tobacco exports. Pre-tax profits from the segment were at ₹355.94 crore in the quarter, compared with ₹298.18 crore in the year-ago period.

Revenue from paperboards, paper, and packaging stood at ₹2,287,58 crore, compared with ₹1.829.72 crore a vear ago, with demand across end-user segments. Pre-tax profits from the segment were at ₹629.78 crore, compared with

Giving back: Start-up entrepreneurs double their donation in FY22

Top 3 from start-ups are Nithin and Nikhil Kamath of Zerodha, Ronnie and Zarina Screwvala of Unilazer group and ex-Flipkart founder Binny Bansal

SURAJEET DAS GUPTA New Delhi, 20 October

Start-up entrepreneurs nearly doubled their contribution to philanthropy in

2022 but their numbers shrank. They decreased to only three (from five) in the top 100 of the Edelgive Hurun India Philanthropy List of 2022 which was released on Thursday. Over the year, no new start-up whizz kid joined the list either.

The three start-up entrepreneurs who made it to the list contributed collectively ₹166 crore in FY22, nearly doug ble that of ₹83 crore in FY21. They are Nithin and Nikhil Kamath of Zerodha, Ronnie and Zarina Screwvala of the Unilazer group and ex-Flipkart founder Binny Bansal who were all also on the previous year's list.

In FY22, the start-up philanthropists accounted for about 3 per cent of the total money contributed by the top 100 promoters of companies and high net worth individuals. In 2021, their contribution was only 0.6 per cent because the corpus for philanthropy was smaller then. The sharp jump in their philanthropic contributions was also in large measure the result of the Zerodha founders increasing their contribution

NADAR RECLAIMS INDIA'S MOST GENEROUS TITLE WITH ₹3 CRORE A DAY

HCL founder Shiv Nadar topped as the most generous person in the country with an annual donation of ₹1,161 crore, the EdelGive Hurun India Philanthropy List 2022 revealed on Thursday.

Nadar, 77, has reclaimed the 'India's most generous' title with a donation of ₹3 crore per day, according to the report.

second position with an annual donation of ₹484 crore after ruling at the top position for the last two consecutive years, it said. India's richest man Gautam Adani, 60,

Wipro's Azim Premji, 77, slipped to the

ranked seventh in Edelgive Hurun India Philanthropy List 2022, with a donation of ₹190 crore. The report further revealed that in India

a total of 15 individuals made an annual donation of over ₹100 crore, 20 donated over₹50 crore and 43 over₹20 crore.









AND FAMILY BAGCHI ₹242 CR ₹213 CR NEW

RADHA & N S GAUTAM ADANI PARTHASARATHY & FAMILY (+1) AGARWAL (+1) ₹165 CR ₹190 CR

NANDAN ₹159 CR

A M NAIK (+1) ₹142 CR



Note: Change in rank over 2021 in brackets

& **FAMILY** (+1)

₹1,161 CR

₹213 CR

previous year.

Bansal also increased his contribution this year by 174 per cent to hit ₹37 crore through his company 3 State Ventures. Screwvala also increased his donation by 26 per cent to ₹29 crore.

Analysts say that the reasons for the increase could be manifold.

The inability of many start-ups to go public due to the uncertain stock market so that they could encash some part of their equity and use it for philanthropy has clearly not happened. Most of them have postponed their IPOs at least

fourfold to ₹100 crore in FY22 over the till next year. Moreover, with private equity players turning off the tap on the free flow of money which had helped valuations to hit new highs, start-up entrepreneurs have now started cutting costs so that they can move towards profitability

> For some perspective on wealth, based on company valuations, it is useful to note that the founders of six startup companies which feature in the top 100 list enjoy a collective wealth of ₹165.900 crore, suggesting that, in comparison with this wealth, the contribution to philanthropy is relatively small.

Some do not feature at all in the top 100 philanthropy list. For instance Falguni Nayar, founder of Nykaa, and her family have a fortune of ₹38,700 which has helped them move to the 33rd rank this year from 169 in 2021 in the IIFL Wealth Hurun India rich list published last month. But Nayar, the richest woman in India, is not in the top 100 Hurun rich list for philanthropy.

Another big name, Byju Raveendran and family, founders of Byju's, have notched up wealth of ₹30,600 crore but are also not in the top 100 philanthropy list.

Data centres: PhonePe makes \$200-million bet

PEERZADA ABRAR Bengaluru, 20 October

Walmart-owned fintech firm PhonePe is investing about \$200 million to set up data centres in India, its Co-founder and Chief Technology Officer Rahul Chari (pictured) said on Thursday.

The Bengaluru-based firm is setting up data centres in India at a time when it has completed three steps to move its domicile to India. The company has over the past year moved all its businesses, including insurance and wealth broking, and subsidi-

On Thursday, the firm, along with NTT and Dell



a smart cooling technology in Mumbai. This takes PhonePe's total data centres to three. The company plans to set up the fourth such facility in Bengaluru soon. "We do believe that captive data centres and on-premise technologies are the way we should go aries of PhonePe Singapore to to meet regulations like data localisation "said Chari

new centre would help it build ciled because we are an Indian Technologies, launched the sustainable infrastructure to company and are serving this country's first data centre with seamlessly scale up its opera-market."

under Tenders section.

tions across the country. This is critical as PhonePe supports 400 million users on its platform doing about 3.6 billion transactions per month. This means over 120 million transactions per day or 7,000 transactions per second. Chari said PhonePe's goal was to be ready for 500 million daily transactions by the end of next year.

When asked about the role domiciling to India would play, in the company's IPO ambitions, Chari said the founders had always been vocal about the fact that PhonePe was an Indian company and worked in a regulated space. "We will go for an IPO if and when we are rea The company claimed the for it and need it. We domi-

(Rs in Lakhs)

			Quarter Ended		Six Mon	Year Ended	
SI. No.	Particulars	30/Sep/22 (Unaudited)	30/Jun/22 (Unaudited)	30/Sep/21 (Unaudited) {refer note b}	30/Sep/22 (Unaudited)	30/Sep/21 (Unaudited) {refer note b}	31/Mar/22 (Audited)
1.	Total income from continuing operations (net)	65,078.83	83,394.00	45,719.74	148,472.83	100,227.35	217,361.60
2.	Net profit / (loss) for the period before tax and exceptional items	1,672.13	5,741.24	3,330.57	7,413.37	7,561.86	20,157.46
3.	Net profit / (loss) for the period before tax and after exceptional items	1,672.13	5,741.24	3,330.57	7,413.37	7,561.86	20,157.46
4.	Net profit / (loss) for the period after tax from continuing operations	1,153.73	3,930.24	2,499.23	5,083.97	5,612.35	14,403.10
5.	Total comprehensive income for the period	1,134.62	3,875.12	2,542.08	5,009.74	5,864.21	14,606.50
6.	Paid-up equity share capital	6,638.76	6,638.76	6,638.76	6,638.76	6,638.76	6,638.76
7.	Other equity (as at year end)	-	-	-	-	-	81,861.30
8.	Earnings per equity share (EPS) (of ₹ 10/- each) (not annualised) :	1.74	5.92	3.76	7.66	8.45	21.70
	a) Basic (₹ per share)	1.74	5.92	3.76	7.66	8.45	21.70
	b) Diluted (₹ per share)						

Extract of Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter and Six Months ended September 30, 2022

- These results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standard (referred to as "Ind AS") 34 Interim Financial Reporting prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules as amended from time to time. The above Consolidated financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Parent Company in their respective meetings held on October 20, 2022. The joint statutory auditors have carried out a limited review of these financial results.
- Pursuant to sanction of the Scheme of Arrangement ("Scheme") by the Hon'ble National Company Law Tribunal ("NCLT"), Prayagraj, on April 27, 2022, between the Parent Company and Dhampur Bio Organics Limited ("DBOL"), the operations of Asmoli, Mansurpur and Meerganj units ("Demerged undertaking") of the Company have been demerged and transferred to DBOL with effect from April 1, 2021, i.e. the Appointed Date. Consequently, figures for the guarter and six months ended September, 2021 have been reclassified to represent the figures of the remaining units of the Parent Company i.e. Dhampur and Rajpura.
- The Government of Uttar Pradesh has revised rates of wages of workmen in sugar and distillery industries in the State with retrospective effect from October 1, 2018 and September 1, 2016 respectively. Consequent to this revision in rates of wages of wage board employees, the Parent Company has accounted for additional liability of Rs. 585.50 Lakhs on account of arrears of wages from the respective dates under Employees Benefits expenses during the quarter and half year ended 30th Sept. 2022.
- Sugar being a seasonal industry, the performance of the quarter may not be representative of the annual performance of the Company. Pursuant to the provisions of Listing Regulations, the Management has decided to publish unaudited consolidated financial results in the newspapers.
- However the unaudited standalone financial results of the Company for the quarter & six months ended September 30, 2022 are available on stock exchange websites i.e https://www.nseindia.com, https://www.bseindia.com and on Company's website www.dhampursugar.com.

Place: New Delhi

Dated: 20th October, 2022

Standardie Information.							
		Quarter Ended			Six Months Ended		
Particulars	30/Sep/22 (Unaudited)	30/Jun/22 (Unaudited)	30/Sep/21 (Unaudited) {refer note b}	30/Sep/22 (Unaudited)	30/Sep/21 (Unaudited) {refer note b}	31/Mar/22 (Audited)	
Total revenue	61,550.41	82,462.55	45,719.74	144,012.96	100,227.35	220,870.59	
Profit before tax	1,586.14	5,381.79	3,331.74	6,967.93	7,564.68	20,449.23	
Profit after tax	1,067.73	3,570.79	2,500.40	4,638.52	5,615.17	14,694.87	
Other comprehensive income (OCI)	(19.11)	(55.12)	42.85	(74.23)	251.86	203.40	
Total comprehensive income	1,048.62	3,515.67	2,543.25	4,564.30	5,867.03	14,898.27	

g Figures for the previous corresponding periods have been regrouped, wherever considered necessary

For and on behalf of the board

Ashok Kumar Goel

Chairman



Regd. Office: Distt. Bijnor, Dhampur (U.P.) - 246761 CIN - L15249UP1933PLC000511, Phone No - 011-41259400

Email: investordesk@dhampursugar.com Website: www.dhampursugar.com

Tata Sons' **Agrawal now** renewable arm chairman



DEV CHATTERJEE Mumbai, 20 October

The Tata group on Thursday restructured the board of Tata Power Renewable Energy with Saurabh Agrawal (*pictured*), a director of Tata Sons, taking over as the chairman of the board.

Three more directors, including Eduard Ruijs, the Managing Director and Head the London-based BlackRock Global Infrastructure Fund team, joined the board as well. Anjali Bansal, Founder of Avaana Capital, and former Indian Administrative Service officer Rajiv Mehrishi, were inducted on the board as well.

The board restructuring took place within months of Tata Power announcing ₹75,000 crore in renewable energy in the next five years -taking on the likes of Reliance Industries, which is investing ₹77,000 crore in the next three years.



Bank of Baroda invites proposals for Supply, Implementation and Maintenance of Payment Hardware Security Modules (HSM). Details are available on Bank's website: www.bankofbaroda.in

"Addendum", if any, shall be published on Bank's website www.bankofbaroda.in under tenders section. Bidder must refer the same before final submission of their proposal Last date for bid submission: 17th November 2022.

Chief Technology Officer 8



concludes the first edition of its international property 'Business Titans'. The gala event was held in Dubai where Radio City celebrated the



Dependents for their unwavering resilience and business innovation Be Sure, Stay Assured with BeSure Sainik

≝IndiaShelter इण्डिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 6ठी मंजिल, प्लॉट 15, सेक्टर-44, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम, हरियाणा-122002,

शाखा कार्यालय : प्रथम तल, 10-डी, पंजवानी कॉम्पलेक्स, सामने मल्टीपरपज स्कूल, गुमानपुरा, कोटा-324007, राजस्थान

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(1) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभृति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल आस्ति

ति दिको है विको सूचना। एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रॉ) एवं जमानती(यों) जिनके विवरण नीचे तालिका में दिये गये हैं, को सूचित किया जाता है कि प्रतिभृत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित नीचे वां

एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से केजदार(र) एवं जमानता(या) जिनक विदर्शण नीच तालिकों में दिय गढ़ है, को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत लेनदार के पास वेधक/प्रभारित नीच व अचल सम्मतियों की विक्री ''जहाँ है जैसे हैं'' तथा ''जो भी है वहीं है'' आधार पर कम्पनी के वकायों की वसूली के लिए की जायेगी।							
 कर्जदार/रों तथा जमानती/यों एवं विधिक उत्तरिधिकारियों के नाम एवं पता तिथि से ब्याज सिंहत कुल बकाया 	भौतिक कब्जे की तिथि	ज्ञात ऋणभार, यदि कोई हो, सहित अचल सम्पत्ति का विवरण	 ई-नीलामी की तिथि एवं समय ईएमडी जमा करने की अन्तिम तिथि सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय 	 आरिक्षत मूल्य सम्पत्ति की ईएमडी संविदा वृद्धि 			
श्रीमती आशा भूषण, श्री भारत भूषण और श्री कालू राम भूषण निवासी: वार्ड नंबर 32, जग मोहल्ला, प्रेम नगर-द्वितीय, सामने धर्मेंद्र किराना स्टोर, कोटा जिला कोटा (राजस्थान) – 324004 ऋण खाता संख्या HL2100000350 कुल बकाया राशि: ठ. 7,75,852/- (रुपये सात लाख पचहत्तर हजार आठ सी बावन मात्र) 28.02.2018 तक बकाया तथा 01.03.2018 से भुगतान की तिथि तक देय ब्याज और अन्य शुल्क तथा लागत	21.06.2022	संपत्ति सर्वेक्षण संख्या 068/1433 का समस्त भाग, आवंटन संख्या 581, पट्टा पुस्तक संख्या 25412, प्रेम नगर प्रहा तहसील लाडपुरा, कीटा, माप क्षेत्र 110 वर्ग गज, श्री कालू राम पुत्र स्वर्गीय श्री धुली राम के पक्ष में, सीमाएँ पूर्व - बाबू लाल का घर, पश्चिम - गोपाल का घर, उत्तर - खुली भूमि और दक्षिण-सड़क	ई-नीलामी की तिथि : 05/11/2022 को 11.30 बजे पूर्वा. से 3.30 बजे अप. तथा 5 मिनट के असीमित विस्तार सहित केवाईसी सहित ईएमडी जमा करने की अन्तिम तिथि 04/11/2022 को 5:00 बजे अप. (भा.मा.स.) तक निरीक्षण की तिथि : 02/11/2022 को 10:30 बजे पूर्वा. से 05:00 बजे अप. (भा.मा.स.)	आरक्षित मृल्य : रु. 11,22,660/- (रुपये ग्यारह लाख बाईस हजार छ: सौ साठ मात्र) जमा धरोहर राशि : रु. 1,12,266/- (रुपये एक लाख बारह हजार दो सौ छियासठ मात्र) संविदा वृद्धि : रु. 10,000/- (रुपये दस हजार मात्र) तथा इसके गुणकों में			
श्रीमती यशोदा, श्री मांगी लाल और श्री विनोद कुमार निवासी: वार्ड नंबर 8, पक्का प्रेम नगर- क्कम, माताजी की गली, कोटा, जिला कोटा (राजस्थान) – 324004 ऋण खाता संख्या HL2000000717 कुल बकाचा राशिः 5, 4,25,659.17/– (रुपये चार लाख पच्चीस हजार छह सौ उनसठ और सत्रह पैसे मात्र) दिनांक 30.09.2019 तक देय तथा 01.10.2019 से भुगतान की तिथि तक ब्याज सहित अन्य प्रभार एवं लागत	11.06.2022	सम्पत्ति सर्वे नंबर 265 का समस्त भाग, पट्टा बुक नंबर 442, प्रेम नगर 3, कच्चा बस्ती, तहसील लाङपुरा, कोटा, मा अध्यक्त पाट, बस्ती, तहसील लाङपुरा, कोटा, मा मांगी लाल पुत्र श्री बिरधी लाल और श्रीमती वशोदा देवी पत्नी श्री मांगी लाल के पक्ष में, सीमाएँ: पूर्व - लक्ष्मी नारायण का प्रस, पश्चिम - सङ्क, उत्तर - रूप चंद का घर और दक्षिण - सड़क	ई-नीलामी की तिथि : 05/11/2022 को 11.30 बजे पूर्वा. से 3.30 बजे अप. तथा 5 मिनट के असीमित विस्तार सहित केवाईसी सहित ईएमडी जमा करने की अन्तिम तिथि 04/11/2022 को 5:00 बजे अप. (भा.मा.स.) तक निरीक्षण की तिथि : 02/11/2022 को 10:30 बजे पूर्वा. से 05:00 बजे अप. (भा.मा.स.)	आरक्षित मूल्य : रु. 15,25,710/- (रुपये पन्द्रह लाख पच्चीस हजार सात सौ दस मात्र) जमा धरोहर राशि : रु. 1,52,571/- (रुपये एक लाख बावन हजार पांच सौ इकहत्तर मात्र) संविदा वृद्धि : रु. 10,000/- (रुपये दस हजार मात्र) तथा इसके गुणकों में			
श्रीमती माया और श्री मोहन लाल निवासी: निवासी राजा किरण स्टोर के पास, प्रेम नगर 3, कोटा जिला कोटा राजस्थान 324004 ऋण खाता संख्या CLA100004530 कुल बकाया राशि: रु. 15,57,802.96/-(रुपये पंद्रह लाख सत्तावन हजार आठ सौ दो और छियानचे पैसे मात्र) दिनांक 30.09.2019 तक देय तथा 01.10.2019 से भुगतान की तिथि तक ब्याज सहित अन्य शुल्क और लागत।	21.01.2022	संपत्ति सर्वेक्षण संख्या ४17 का समस्त भाग, माप क्षेत्र 108.75 वर्ग गज, 978.78 वर्ग फीट, प्रेम नगर ३रा, राजा हिराना स्टोर के पास, कोटा जिला केरा राजस्थान – 324004, सीमाएँ : पूर्व- लातुर लाल, पश्चिम-कैलाश, उत्तर- रामस्वरूप बैरवा का घर और दक्षिण- सड़क	ईं-नीलामी की लिथि : 05/11/2022 को 11.30 बजे पूर्वा. से 3.30 बजे अप. तथा 5 मिनट के असीमित विस्तार सहित केवाईसी सहित ईएमडी जमा करने की अन्तिम तिथि 04/11/2022 को 5:00 बजे अप. (भा.मा.स.) तक निरीक्षण की तिथि : 02/11/2022 को 10:30 बजे पूर्वा. से 05:00 बजे अप. (भा.मा.स.)	आरक्षित मूल्य : रु. 9,79,668/- (रुपये नौ लाख उन्यासी हजार छ: सौ अइसट मात्र) जमा धरोहर राशि : रु. 97,967/- (रुपये सत्तानबे हजार नौ सौ सङ्गरट मात्र) सिवार चृद्धि : रु. 10,000/- (रुपये दस हजार मात्र) तथा इसके गुणकों में			

जमा धरोहर राशि डीडी के माध्यम से ''इण्डिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड'' के पक्ष में गरुग्राम लोकल शाखा में देय अथवा एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से ''एक्सिस बैंक के खाता सं. 911020001057107 तथा आईएफएससी कोड : UTIB0000131, शाखा गुरुग्राम, शाखा कोड 000131 में जमा किया जाना है। बिकों के तहत आरितयों से सम्बन्धित किसी आपत्ति/स्पष्टीकरण के मामले में संविदाकार सम्पर्क करें : श्री यज्ञ नारायण सिंह (+91 9982945179) तथा श्री नरेन्द्र रि

(+919461165805). बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कपया इण्डिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट www.indiashelter.in अथवा www.indiashelter.auctiontiger.net देरे कते इपिडया प्रोल्टर कॉर्पोरेशन फाइनेंस लिसिटेड (अधिकत पाधिका स्थान : कोटा/तिथि : 21.10.2022

कब्जा सूचना

जबिक **जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड** (पूर्व में जनलक्ष्मी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड नाम् से ज्ञात) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते वित्तिय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहते प्रदत्ते शक्तियों के प्रयोग ग उधारकर्ता(ओं)/सह–उधारकर्ता(ओं) को **मांग सचनाएँ** जारी कर उधारकर्ताओं को उनके नामों वे विरुद्ध देय राशि, लागू आकरिमक खर्चों के रूप में भविष्य के ब्याज के साथ, लागत, मुगतान और/या वसूली की दिनांक तक किए गए शुल्क आदि के साथ के साथ उक्त सूचना की प्राप्ती से **6**0 **दिनों** के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था।

क्र. सं.	ऋण संख्या	उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/ गारंटर/बंधककर्ता	13(2) सूचना दिनांक/ बकाया देय (रूपये में) तक	दिनांक/समय और कब्जे का प्रकार
1	30219670000025 & 30218950006082	 श्री राकेश कुमार झा, मालक शिव मेडिकल एंड जनरल स्टोर अपने मालिक द्वारा प्रतिनिधित्व श्री राकेश कुमार झा 2) श्री राकेश कुमार झा (उधारकर्ता) 3) श्री अंकित कुमार झा (गारंटर) 	10.08.2022 रू. 16,95,794/— (रुपये सोलाह लाख पचानबे हजार सात सौ चौरानबे मात्र) दिनांक 09.08.2022 तक	दि. 20.10.2022 समय : पूर्वाह्न 10 : 23 बजे और प्रतिकात्मक कब्जा

प्रत्याभृत परिसंपत्तियों का विवरण: निर्मित संपत्ति धारक सं. डी–255, (पुरानासं. 70–बी) भूमि मापक 75 वर्ग गज, खसरा सं. 57/11 में से, स्थित ग्राम क्षेत्र नागलोई जाट, दिल्ली, राज्य,दिल्ली, आबादी नांगलोई एक्स–2 से ज्ञात, गली सं. 13, नांगलोई, दिल्ली–110041, राकेश कुमार झा पुत्र श्री एस .एने.झा द्वारा स्वामित्व।

	1) श्री अखतर मालिक जनता	08.08.2022	दि.
	रिपेरिंग एंड सर्विस अपने	रु. 18,14,810/−	20.10.2022
30209670000141	मालिक द्वारा प्रतिनिधित्व	(रुपये अड्डाराह लाख	समय :
9	श्री मोहम्मद अखतर ,	चौदाह हजार आठ सौ	दोपहर
α	2) श्री मोहम्मद अखतर	दस मात्र)	12 : 35 बजे
30209440000355	(उधारकर्ता),3) श्रीमती	दिनांक	और
	मुनिजा (गारंटर),4) श्री	07.08.2022	प्रतिकात्मक
	आमीर सहेल	तक	कब्जा

प्रत्याभृत परिसंपत्तियों का विवरण : खेवत सं. 4, किल्ला सं.10(8–0) कित्ता–1, रकबा8 कनाल0 मुसतिल सं.28 को, 15/1440 भाग मरला अराजी रकबा 0 कनाल 1 और खेवत सं.52 किल्ला सं.1(8–0) कित्ता–1, रकबा8, कनाल 0 मुसतिल सं. 28 का, 15/1440 भाग मरल अराजी रकबा 0 कनाल 1 मरला 6 सरसई यानी कुल मिजान रकबा 0 कनाल उमरला : सरसई(यानी 100 वर्ग गज), स्थित अराजी जराई, वाका सिवाना मौजा सेहजवास, तहसील सोहना और जिला गुड़गांव, हरियाणा—122102, **मोहम्मद अखतर पुत्र बसरूद्दीन** द्वारा स्वामित्व

हैं, एतद् द्वारा विशेष रूप से ऊपर उल्लेखित उधारकर्ताओं को और सामान्य रूप से जनता को सूचित किय जाता है कि **जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4 के साथ पठित उक्त नियमों के नियम 8 के तहत उसे प्रदृ । यहां वर्णित संपत्तियों/प्रत्याभूत परिसंपत्तियों का **प्रतीकात्मक कब्जा कर लिया है।** विशेष रूपसे उज्पर उल्लेखित उधारकर्ताओं / सह—उधारकर्ताओं / गारंटरों /बंधककर्ताओं और आम जनता को सामान्य रूप से एतद् द्वारा उपर्युक्त संपत्तियों /प्रत्याभूत परिसंपत्ति से कोई भी व्यवहार करने से आगाह किया जाता है और उक्त संपत्तियों / प्रत्याभुत परिसंपत्ति के साथ कोई भी व्यवहार **जाना रमॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड** के प्रभार

के अधीन होगा।	
स्थान : दिल्ली	हस्ता./— प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक : 20.10.2022	प्रति. जना रमॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

🌙 जना स्मॉल फाइनेंस बैंक

<u>पंजीकृत कार्यालय :</u> द फेयरवे, भूतल और प्रथम तल, सर्वे सं. 10/1, 11/2 और 12/2बी, ऑफ डोमलुर ाला डनर रिंग रोड. ईजीएल बिजनेस पार्क के पास. चलाघण्टा. बेंगलोर–56007 1.शाखा कार्याल 16 / 12 , दूसरा तल , डब्ल्यू. ई.ए. , आर्या समाज रोड़ , करोल बाग , दिल्ली – 1 10005

II HDFC

मांग स्चना

हाउसिंग डेवलपमेन्ट फाइनेन्स कार्पोरेशन लि.

तृतीय तल, प्रीमियर प्लाजा, 106 राजपुर रोड, एस्टले हॉल के सामने, देहरादून-248001

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित प्रतिभृति हित ग्वर्तन अधिनियम, 2002 धारा 13(2) के अन्तर्गत

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अर्न्तगत **हाउसिंग डेवलपमेन्ट फाइनेन्स कार्पोरेशन लि0 (एचडीएफसी लि0)** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग सूचन जारी कर जहां नीचे सूचीबद्ध ऋणी(ओं) / कानूनन वारिसों / कानूनन प्रतिनिधियों को नीचे दिये गये विवरणों के अनुसार संबंधित सूचनाओं की तिथि से 60 दिनों के भीतर संबंधित मांग सूचना / सूचनाओं में वर्णित राशि को वापस लौटाने के लिये कहा था। अधोहस्ताक्षरी ने उक्त ऋणी(ओं) / कानूनन वारिसों / कानूनन प्रतिनिधियों के अंतिम ज्ञात पते के परिसरों में भी इन सूचनाओं को चिपकवाया था। उक्त सूचनाओं की प्रतियां अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध हैं, तथा उक्त ऋणी(ओं) / कानूनन वारिसों / कानूनन प्रतिनिधियों यदि वे ऐसा चाहें, उक्त प्रतियों को किसी भी कार्य दिवस को सामान्य कार्यालय अवधि के दौरान अधोहस्ताक्षरी से प्राप्त कर सकते हैं।

उपरोक्त के सिलसिले में एक बार पुनः एतदृद्वारा उक्त ऋणी(ऑ) / कानूनन वारिसों / कानूनन प्रतिनिधियों को सूचित किया जाता है कि वे उक्त ऋणी(ओं) द्वारा निष्पादित लिखित में, यदि कोई हो, किसी भी अन्य दस्तावेजों के साथ पठित ऋण अनुबंध के अंतर्गत कॉॅलम सी में नीचे वर्णित तिथि से भुगतान एवं / अथवा उगाही की तिथि तक उक्त मांग सूचना में वर्णित लागू होने योग्य दरों पर आगे के ब्याज 18 प्रतिशत की दर के साथ यहां नीचे दर्शायी गयी राशि का इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर **एचडीएफसी लि0** को भुगतान कर दें। ऋण की देय नुर्मुगतान के लिए प्रतिभूति के रूप में क्रमशः उक्त ऋणी व्यक्ति ∕ व्यक्तियों द्वारा **एचडीएफसी लि0** के पास निम्नलिखित प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को बन्धक रखा गया है:

ऋणी / उधारकर्ता (ओं) / काननन वारिस (ओं) / काननन प्रतिनिधि (यों) का ध्यान सरफेसी एक्ट की धारा 13 की उप–धारा(8) की ओर आकष्ट केया जाता है कि तय समय सीमा में प्रतिभूत परिसम्पत्ति को रीडीम (मोचन) कर सकते हैं।

(y)	(ৰী)	(सी)	(डी)	(ই)
क्र0 सं0	ऋणी व्यक्ति/व्यक्तियों उधारकर्ता/कानूनन वारिसों/ कानूनन प्रतिनिधियों का नाम	कुल बकाया धनराशि (रु०)*	मांग सूचना की तिथि	प्रतिभूत परिसम्पत्ति / अचल सम्पत्ति का विवरण
1	श्री आनन्द सिंह मेहरा (ऋणी) श्री कस्तूरी आनन्द सिंह मेहरा (सह-ऋणी) प्लाट नं0 66 एवं प्लाट नं0 67 का भाग, गाटा नं0 489/3 मिन, ग्राम विजय नगर, तहसील रुद्रपुर, उधमसिंह नगर-263139 एवं : मकान नं0 29, पटियाला, कालाडुंगी, नैनीताल-263140	6,08,432 / — दिनांक 31.08.2022 तक एवं 01.09.2022* से देय ब्याज	26.09.2022	प्लाट नं0 66 एवं प्लाट नं0 67 का भाग, गाटा नं0 489/3 मिन, ग्राम विजय नगर, तहसील रूद्रपुर, जिला उधमसिंह नगर सम्पत्ति के समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग वर्तमान और भविष्य के निर्माण सहित। पैमाइश प्लाट क्षेत्रफलः 104.55 वर्ग मी0/1124.95 वर्ग फुट चौहद्दीः पू: अन्य की सम्पत्ति, प: रास्ता 7.62 मीटर, जः अन्य की सम्पत्ति, दः अन्य की सम्पत्ति
2	श्री श्याम नन्दन कुमार (ऋणी) खरारा नं० 188 मिन पर मकान, ग्राम विजय नगर, तहसील गदरपुर, रूद्रपुर-263153 श्री अनीस अहमद (जमानतकर्ता) गली नं० ०६, वार्ड नं० ०९, सीरागोटिया रूद्रपुर-263153		28.09.2022	खसरा नं0 188 मिन, खाता नं0 00057, ग्राम विजय नगर, तहसील गदरपुर, रूद्रपुर, सम्पत्ति के समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग वर्तमान और भविष्य के निर्माण सहित । पैमाइश प्लाट क्षेत्रफल: 167.28 वर्ग मी0/1800 वर्ग फुट कवर्ड क्षेत्रफल: :164 वर्ग मी0/1764.64 वर्ग फुट कवर्ड क्षेत्रफल: :164 वर्ग मी0/1764.64 वर्ग फुट व्याहद्दी: पू: रास्ता, प: रास्ता, उ: सम्पत्ति विक्रेता, द: सम्पत्ति विक्रेता
3	श्रीमती गुङ्डी त्यागी (ऋणी) पत्नी स्व० श्री सुरेन्द्र सिंह त्यागी (अब मृतक) एवं अन्य जाने अन्जाने कानूनी उत्तराधिकारी और कानूनी प्रतिनिधि स्व० श्री सुरेन्द्र सिंह त्यागी (अब मृतक) मकान नं० ई 1/2, बिरला टाईपर्स कालोनी, खेदिमुबारकपुर, लश्कर, हरिद्वार—249401	3,41,172 / — दिनांक 31.07.2022 तक एवं 01.08.2022* से देय ब्याज	29.09.2022	प्लाट नं0 ओ-1, खसरा नं0 160 एमए, ग्राम दाबकी खुर्द, विष्टू विहार कालोनी, परगना मैंगलोर, तहसील लश्कर जिला हरिद्वार, सम्पत्ति के समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग वर्तमान और भविष्य के निर्माण सिहत। पैमाइश: पू: 60.2 फुट, प: 61 फुट, उ: 30.1 फुट, द: 30.1 फुट पैमाइश प्लाट क्षेत्रफल: 169.64 वर्ग मी0/1824.06 वर्ग फुट कवर्ड क्षेत्रफल: :110 वर्ग मी0/1183.60 वर्ग फुट कवर्ड क्षेत्रफल: :110 वर्ग मी0/1183.60 वर्ग फुट चौहत्दी: पू: प्लाट पी-1, पाण्डेय जी, प: प्लाट एन-1, घनश्याम जी, ज: रास्ता 20 फुट चौड़ा, द: अन्य की भूमि

भगतान और / या वसली की तिथि तक 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की लाग दर से ब्याज, आकरिमक व्यय, लागत, शल्क सहित। यदि, उक्त ऋणदाता **एचडीएफसी लि0** को उपरोक्त भुगतान करने में विफल होते हैं, तो इस अधिनियम की धारा 13(4) लागू होने योग नियमों के अंतर्गत एचडीएफसी लिंo लागतों एवं परिणामों के संदर्भ में उक्त ऋणी(ओं)/कानुनन वारिसों/ कानुनन प्रतिनिधियों की सम्पूर्ण जोखिम पर ऊपर प्रतिभूत परिसम्पत्तियों / अचल सम्पत्तियां के प्रति आगे की कार्रवाई करेगी।

इस अधिनियम के अंतर्गत **एचडीएफसी लि0** की पूर्व लिखित सहमति के बिना उक्त ऋणी(ओं) / कानूनन वारिसों / कानूनन प्रतिनिधियों बिक्री पटटा अथवा अन्य रूप में उपरोक्त प्रतिभत प्ररिसम्पत्तियों /अचल सम्पत्तियों का अंतरण नहीं कर सकते हैं

यदि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करते हैं अथवा इस अधिनियम के प्रावधानों अथवा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों का उल्लंघन करने पर इर

अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत कैद एवं / अथवा दंड हो सकता है। दिनांकः 21.10.2022 हाउसिंग डेवलपमेन्ट फाइनेन्स कार्पोरेशन लिमिटेड के लिए

स्थान : देहरादून (प्रा0 अधिकारी) . पंजीकृत कार्यालय : एचडीएफसी लि0, रेमन हाउस, एच टी पारेख मार्ग, 169, बैकबे रेक्लेमेशन, चर्चगेट, मुम्बई 400 020 CIN: L70100MH1977PLC019918 वेबसाइट : www.hdfc.com

DHAMPUR Legacy for tomorrow

Extract of Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter and Six Months ended September 30, 2022

अचल सम्पत्तियोंकी बिक्री

हेतु विक्रय सूचना

(Rs. in Lakhs)

				Quarter Ended		Six Mon	Year Ended	
	SI. No.	Particulars	30/Sep/22 (Unaudited)	30/Jun/22 (Unaudited)	30/Sep/21 (Unaudited) {refer note b}	30/Sep/22 (Unaudited)	30/Sep/21 (Unaudited) {refer note b}	31/Mar/22 (Audited)
	1.	Total income from continuing operations (net)	65,078.83	83,394.00	45,719.74	148,472.83	100,227.35	217,361.60
	2.	Net profit / (loss) for the period before tax and exceptional items	1,672.13	5,741.24	3,330.57	7,413.37	7,561.86	20,157.46
	3.	Net profit / (loss) for the period before tax and after exceptional items	1,672.13	5,741.24	3,330.57	7,413.37	7,561.86	20,157.46
	4.	Net profit / (loss) for the period after tax from continuing operations	1,153.73	3,930.24	2,499.23	5,083.97	5,612.35	14,403.10
	5.	Total comprehensive income for the period	1,134.62	3,875.12	2,542.08	5,009.74	5,864.21	14,606.50
	6.	Paid-up equity share capital	6,638.76	6,638.76	6,638.76	6,638.76	6,638.76	6,638.76
	7.	Other equity (as at year end)	-	-	-	-	-	81,861.30
	8.	Earnings per equity share (EPS) (of ₹ 10/- each) (not annualised) :	1.74	5.92	3.76	7.66	8.45	21.70
		a) Basic (₹ per share)	1.74	5.92	3.76	7.66	8.45	21.70
		b) Diluted (₹ per share)						
-	Notes:							

Notes:

- a These results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standard (referred to as "Ind AS") 34 Interim Financial Reporting prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules as amended from time to time The above Consolidated financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Parent Company in their respective meetings held on October 20, 2022. The joint statutory auditors have carried out a limited review of these financial results.
- Pursuant to sanction of the Scheme of Arrangement ("Scheme") by the Hon'ble National Company Law Tribunal ("NCLT"), Prayagrai, on April 27, 2022, between the Parent Company and Dhampur Bio Organics Limited ("DBOL"), the operations of Asmoli, Mansurpur and Meerganj units ("Demerged undertaking") of the Company have been demerged and transferred to DBOL with effect from April 1, 2021, i.e. the Appointed Date. Consequently, figures for the guarter and six months ended September, 2021 have been reclassified to represent the figures of the remaining units of the Parent Company i.e. Dhampur and Rajpura
- The Government of Uttar Pradesh has revised rates of wages of workmen in sugar and distillery industries in the State with retrospective effect from October 1, 2018 and September 1, 2016 respectively. Consequent to this revision in rates of wages of wage board employees, the Parent Company has accounted for additional liability of Rs. 585.50 Lakhs on account of arrears of wages from the respective dates under Employees Benefits expenses during the quarter and half year ended 30th Sept. 2022.
- Sugar being a seasonal industry, the performance of the quarter may not be representative of the annual performance of the Company
- Pursuant to the provisions of Listing Regulations, the Management has decided to publish unaudited consolidated financial results in the newspapers. However the unaudited standalone financial results of the Company for the quarter & six months ended September 30, 2022 are available on stock exchange websites i.e https://www.nseindia.com, https://www.bseindia.com and on Company's website www.dhampursugar.com

Standalone Information

Place: New Delhi

Dated: 20th October, 2022

(Rs. in Lakhs)

		Quarter Ended			Six Months Ended	
Particulars	30/Sep/22 (Unaudited)	30/Jun/22 (Unaudited)	30/Sep/21 (Unaudited) {refer note b}	30/Sep/22 (Unaudited)	30/Sep/21 (Unaudited) {refer note b}	31/Mar/22 (Audited)
Total revenue	61,550.41	82,462.55	45,719.74	144,012.96	100,227.35	220,870.59
Profit before tax	1,586.14	5,381.79	3,331.74	6,967.93	7,564.68	20,449.23
Profit after tax	1,067.73	3,570.79	2,500.40	4,638.52	5,615.17	14,694.87
Other comprehensive income (OCI)	(19.11)	(55.12)	42.85	(74.23)	251.86	203.40
Total comprehensive income	1,048.62	3,515.67	2,543.25	4,564.30	5,867.03	14,898.27

g Figures for the previous corresponding periods have been regrouped, wherever considered necessary.

For and on behalf of the board

Sd/-

Ashok Kumar Goel Chairman



DHAMPUR SUGAR MILLS LIMITED

Regd. Office: Distt. Bijnor, Dhampur (U.P.) - 246761 CIN - L15249UP1933PLC000511.

Phone No - 011-41259400 Email: investordesk@dhampursugar.com

Website: www.dhampursugar.com

वसूली अधिकारी-। का कार्यालय, ऋण वसूली न्यायाधिकरण-।।, दिल्ली चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग, पटेल चौक, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

बिक्री उद्घोषणा

आर.सी. सं. 343 / 2017

कर्नाटक बैंक बनाम मैसर्स दीपांशु हिमांशु एंटरप्राइजेज

बैंक और वित्तीय संस्थाओं के बकाया ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 52(2) के तहत बिक्री की उद्घोषणा

मैंसर्स दीपांशु हिमांशु एंटरप्राइजेज (एक प्रोपराइटरशिप कन्सर्न) एफ-1, मेन बवाना रोड, समयपुर, दिल्ली-110085 सीडी # 2 श्री संजीव सैनी पत्र श्री राम करण सैनी, एफ-1, मेन बवाना रोड, समयपुर, दिल्ली-110085

श्रीमती सुनीता सैनी पत्नी श्री संजय सैनी, एफ-1, मेन बवाना रोड, समयपुर, दिल्ली-110085 सीडी # 3

सीडी # 2 श्री सुधीर यादव पुत्र श्री धरमपाल यादव, ए-14, यादव नगर, समयपुर, दिल्ली-110085

जबिक पीठ अधिकारी, ऋण वसुली न्यायाधिकरण—।।, दिल्ली द्वारा **ओ.ए. सं. 582/2016** में आहरित वसुली प्रमाणप सं. 343/2017 दिनांकित 20–11–2017 के अनुसार रू. 2,44,70,321.50.00/— (रू. दो करोड़ चौवालीस लाख सत्तर हजार तीन सौ इक्कीस प्रमाणपत्र के अनुसार देय हो चुकी है। आवेदक आप सीडी ज से संयुक्त एवं पृथक रूप से रू. 2,44,70,321.50.00 /— (रू. दो करोड़ चौवालीस लाख सत्तर हजार तीन सौ इक्कीस तथा पैसे पचास मात्र) की राशि ओए दाखिल किए जाने की तिथि से वसूली तक 12.75 प्रतिशत वार्षिक की दर पर ब्याज तथा रू. 1,50,000 / – (रू. एक लाख पंचास हजार मात्र) की लागत सहित वसूल करने का हकदार है (वसूली योग्य राशि

रू. 4.35 करोड (लगभग) है)। और जबिक अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रमाणपत्र के समाशोधन में नीचे तालिका में वर्णित सम्पत्ति की बिक्री का आदेश दिया है तदद्वारा सूचना दी जाती है कि कोई स्थगनादेश नहीं होने की स्थिति में उक्त सम्पत्ति की **बिक्री ई—नीलामी द्वारा की जाएगी** तथा बोलीदान दिनांक 25-11-2022 को पूर्वा. 11.00 बजे से मध्या. 12.00 बजे के बीच के साथ मध्या. 12.00 बजे के बाद, यदि अपेक्षित 5 मिनट की अवधि के विस्तारों के साथ. https://www.bankeauctions.com **के माध्यम से "ऑनलाइन इलेक्टानिक बोलीदान" द्वारा किया** जाएगा ।

उपरोक्त नामक सीडी'ज की नीचे तालिका में वर्णित सम्पत्ति की बिक्री की जाएगी तथा उक्त सम्पत्ति से जुड़े दावे और देयता

जुदां तक अभिनिष्टित की जा सकी हैं पत्रोक लॉट के सामने तालिका में विनिर्दिष्ट की गर्द हैं। 5. सम्पत्ति की बिक्री तालिका में विनिर्दिष्ट अनुसार की जाएगी। यदि सम्पत्ति के एक अंश की बिक्री से वसूली राशि पूरी हो जाती है, तब शेष सम्पत्ति की बिक्री तत्काल रोक दी जाएगी। बिक्री तब भी रोक दी जाएगी यदि, किसी लॉट की बिक्री से पहले, उक्त प्रमाणपत्र में वर्णित बकाया राशि. लागतों (बिक्री की लागत सहित) सहित, बिक्री संचालित कर रहे अधिकारी को सौंप दी जाती है अथवा उसकी संतुष्टि हेतु प्रमा दिया जाता है कि ऐसे प्रमाणपत्र की राशि ब्याज तथा लागतों सहित अधोहस्ताक्षरी को अदा की जा चुकी है।

6. इस बिक्री के संबंध में ड्यूटी कर रहा कोई अधिकारी अधवा अन्य व्यक्ति, बिक्री की जा रही सम्पत्ति में, कोई हित अर्जि करने या अर्जित करने का प्रयास करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई बोली नहीं लगाएगा। यह बिक्री आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में निर्धारित शर्तों और उनके तहत बनाए गए नियमों तथा उसवे

अतिरिक्त निम्नलिखित शर्तों के तहत की जाएगी :-

संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार वर्णित किए गए हैं, परंतु अधोहस्ताक्ष इस उदघोषणा में किसी त्रिट. असत्यकथन अथवा विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।

सुरक्षित मूल्य, सम्पत्ति सं. 1 भूमि परिमाप 220 वर्ग गज तथा कवर्ड एरिया 1340 वर्ग फीट, स्थित खसरा नंबर 46/17, ग्राम समयपुर, आबादी समयपुर एक्सटेंशन के नाम से ज्ञात, दिल्ली ; जिससे कम पर नहीं बेची जाएगी, रू. 1,35,70,000/— (रू. एककरोड़ लाख सत्तर हजार मात्र) तथा धरोहर राशि जमा (ईएमडी) : रू. 13,57,000/- (रू. तेरह लाख सत्तावन हजार मात्र) है। पैरा (प) में वर्णित सम्पत्ति के संबंध में।

इच्छुक बोलीदाता जो अपनी बोली, जो सुरक्षित मूल्य से कम नहीं है, 23-11-2022 के अप. 5.00 बजे से पहले वस्त अधिकारी—।, डीआरटी—।।, दिल्ली के कार्यालय में पैन कॉर्ड, पहचान प्रमाण, पता प्रमाण इत्यादि के साथ जमा कर चुके होंगे **25—11—2022** को पूर्वा. 11.00 बजे से मध्या. 12.00 बजे तक ई-नीलामी में भाग लेने हेतु ग्राह्म होंगे। व्यक्ति के मामले में एक घोषणा भी प्रस्तुत करनी होगी बिंड उसकी स्वयं की ओर से अथवा उसके प्रधान की ओर से दी जा रही है। नीलामी समाप्ति से पूर्व अंतिम 5 मिनट में कोई बोली आन पर समाप्ति का समय स्वतः 5 मिनट आगे बढ़ जाएगा।

बोलीदाता अपनी ऑफर **फ. 1.00.000 /— लाख (फ. एक लाख मात्र)** के गणकों में बढ़ा सकेंगे। असफल बोलीदाता अपनी ईएमडी ई–नीलामी बिक्री प्रक्रिया समाप्त होने के शीघ्र पश्चात वसूली अधिकारी–।, डीआरटी–।

दिल्ली / सीएच बैंक नामतः कर्नाटक बैंक से प्राप्त कर सकते हैं। सफल / उच्चतम बोलीदाता को अपनी बोली / बिक्री राशि की 25 प्रतिशत राशि का डाफट / पे आईर, ईएमडी समायोजन

बाद, वसूली अधिकारी-।, डीआरटी-।।, दिल्ली खाता **आरसी सं. 343/2017** के पक्ष में, ई-नीलामी की समाप्ति के बाद 24 घंटे के भीतर तैयार करना होगा तथा वसूली अधिकारी—।, डीआरटी—।।, दिल्ली को इस प्रकार भेजना/जमा करना होगा कि ई—नीलामी की समाप्ति बाद 24 घंटे के भीतर पहुंचे जाए, जिसमें असफल होने पर ईएमडी जब्त कर ली जाएगी।

सफल / उच्चतम बोलीदाता को बिक्री प्राप्तियों की 75 प्रतिशत राशि का डाफट / पे आर्डर वसली अधिकारी-। डीआरटी-। दिल्ली खाता **आरसी सं. 343/2017** के पक्ष में, सम्पत्ति की बिक्री की तिथि से, उस तिथि को छोड़कर, 15 वें दिन को अथवा पूर्व वसूली अधिकारी–।, डीआरटी–।।, दिल्ली के पास जमा करना होगा अथवा यदि 15वां दिन रविवार या अवकाश है, तब 15वें दिन के बाद पह कार्यालय दिवस को रू. 1,000/- तक 1 प्रतिशत की दर पर पाउंडेज शुल्क तथा रू. 1,000/- से अधिक पर 1 प्रतिशत की दर पर ओपी रजिस्ट्रार, डीआरटी-|।, दिल्ली के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा करना होगा। (शेष 75 प्रतिशत राशि डाक द्वारा जमा करने के मामले में यह वसूली अधिकारी के पास उपरोक्तानुसार पहुंचे जानी चाहिए)

7.8 सफल/उच्चतम बोलीदाता शेष बिक्री राशि के भुगतान के समय इस फोरम के समक्ष जमा की जाने हेतु प्रस्तावित नीलार्म राशि पर लागू आईडीएस के भुगतान के लिए आयकर अधिनियम की धारा 194— कि के प्रावधानों का पालन करने हेतु स्वतंत्र होगा। निर्धारित अवधि में भुगतान में चूक की स्थिति में, बिक्री की नई उद्घोषणा जारी किए जाने के बाद, सम्पत्ति की बिक्री नर सिरं से की जाएगी। बोलीदाता द्वारा पहले जमां की गई राशि, बिक्री के व्यय काटने के बाद, यदि अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपयुक्त समझा जात है. सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी और सम्पत्ति अथवा उसके किसी अंश अथवा सम्पत्ति की पुनरबिक्री से प्राप्त होने वाली राशि व

किसी अंश के संबंध में, चूककर्ता क्रेता के सभी दावे जब्त मान्य होंगे। सम्पत्ति की बिक्री "जैसी है जहां है तथा जैसी है जो है आधार" पर की जा रही है।

सीएच/बैंक/सीएचएफआई को ऊपर दिए विवरण की सत्यता के बारे में सत्यापन और प्रमाणित करने का निर्देश दिया जाता है। अधोहस्ताक्षरी के पास कोई भी या सभी बोलियां स्वीकार या अस्वीकार करने, यदि अनुपयुक्त पाई जाती हैं, अथवा बिना कोई कारण बताए किसी भी समय नीलामी प्रास्थगित करने का अधिकार सरक्षित है।

	बिक्री की जा रही सम्पत्ति का वर्णन,	सम्पत्ति या उसके किसी भाग पर निर्घारित राजस्व	सम्पत्ति के संबंध में देय किसी ऋणभार का विवरण	सम्पत्ति के बाबत पेश किया गया कोई दावा तथा अन्य कोई ज्ञात विवरण जो सम्पत्ति की प्रकृति और मूल्य को प्रमावित करता है।		
	सम्पत्ति सं. 1 भूमि परिमाप 220 वर्ग गज तथा कवर्ड एरिया 1340 वर्ग फीट, स्थित खसरा नंबर 46/17, ग्राम समयपुर, आबादी समयपुर एक्सटेंशन के नाम से ज्ञात	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं		

मेरे हस्ताक्षर तथा मोहर के साथ 01-10-2022 को दिया गया।

(उत्तम नेगी)

वसली अधिकारी-।, डीआरटी-।।, दिल्ली

सम्पत्ति की अनसची